


मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम

(Hindi version)

ढीले, हल्के रंग के लंबे बाजू के टॉप
और ट्राउजर पहनें।
शरीर और कपड़ों के बिना वाले भागों पर
DEET युक्त कीट विकर्षक लगाएँ।




स्थिर पानी के संचय को रोकें

अभी कदम उठाएँ



जब कमरा वातानुकूलित न
हो तो मच्छर
स्क्रीन या बेड नेट का प्रयोग करें।



मच्छरों को प्रवेश करने से रोकने के लिए,
दरवाजे और खिड़कियों जैसे प्रवेश द्वार के पास मच्छर
भगाने वाले साधनों को रखें।



हांगकांग जाने वाले यात्री जो
अस्वस्थ महसूस करते हैं,
उन्हें तुरंत चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए और
यात्रा विवरण के बारे में डॉक्टर को
सूचित करना चाहिए।



衛生防護中心
Centre for Health Protection



衛生防護中心網站 Centre for Health Protection Website

www.chp.gov.hk



衛生防護中心 Facebook 專頁 Centre for Health Protection Facebook Fanpage

fb.com/CentreforHealthProtection

衛生署二十四小時健康教育熱線
24-Hour Health Education Hotline
of the Department of Health

2833 0111



衛生署
Department of Health

二零一九年三月修訂
Revised in March 2019